Anant Raj Limited

CIN: L45400HR1985PLC021622

Head Off: H-65, Connaught Circus, New Delhi-110 001 Tel: 011-43034400, 23324127, 23323880, 43582879

E-mail: info@anantrajlimited.com Website: www.anantrajlimited.com

Regd. Office: CP-1, Sector-8, IMT Manesar, Haryana-122051

Tel: (0124) 4265817

ARL/CS/13320



November 21, 2023

The Manager	The Secretary,				
Listing Department	The National Stock Exchange of India				
The BSE Limited,	Limited,				
Phiroze Jee Bhoy Towers,	"Exchange Plaza", 5th Floor,				
Dalal Street, Mumbai – 400001	Plot No. C/1, G-Block, Bandra – Kurla				
	Complex, Bandra (E), Mumbai-400051				
Scrip code: 515055	Scrip code: ANANTRAJ				

Sub: Newspaper Advertisement-Notice of Extra-Ordinary General Meeting

Dear Sir,

Please find enclosed a copy of advertisement published in "The Economic Times" and "Navbharat Times" regarding Notice of Extra-Ordinary General Meeting to be held on Thursday, December 14, 2023.

Kindly take the same on record.

Thanking You,

For **Anant Raj Limited**

Manoj Pahwa Company Secretary A7812

Encl: As above

ArcelorMittal Withdraws Plea Seeking SC Nod to **Return Land for** K'taka Factory

Indu.Bhan@timesgroup.com

New Delhi: The world's largest steel producer, Arcelor-Mittal, on Monday withdrew its petition seeking the Supreme Court's clearance to return 2,643 acres it had acquired for a proposed six-million-tonne steel project in Karnataka. This after the Karnataka Industrial Area ADB) revoked its show-cause notices issued in February and March this year threatening to reclaim the land.

Senior counsel S Muralidhar, appearing for the state government agency, told a bench led by Justice Sanjay Kishan Kaul that "to allay any misapprehension" of Arcelor Mittal, the board had on November 6 withdrawn its notices, which though were "germane to the issue and vital for proper adjudication" of the case.

The bench took on record the board's stand and also the submissions of senior counsel AM Singhvi, who represented ArcelorMittal, to withdraw its petition in view of the latest developments. No purpose would be served to keep the matter alive," the apex court said.

Earlier, the steel producer had argued that due to protracted litigation and uncertainty, it was "desirous" of returning the land it had acquired and was willing to forfeit the ₹267 crore compensation paid to KIADB. The company said the proposal was to acquire 4,856 acres, but it was allotted only 2,643 acres.

The apex court had on January 31 asked ArcelorMittal to pay an enhanced compensation of more than ₹30 lakh each for 234.40 acres of land. The

order came on a petition by a group ught enhanced compensation for their land acquired by KIADB in 2010 in the Bellary district for the Ar-

celorMittalproject. Four days after the SC judgement, KIADB issued a showcause notice purporting to terminate its 2018 lease-cum-sale agreement with the company for the allotted land

Terming this as "complete ly illegal and arbitrary", Arsurrender" the entire allotted land of 2.643 acres, but pleaded that it be returned to the landowners from whom it was acquired with no liabilities foisted upon it, and not it was ready to forfeit the monev paid to the state agency in 2010 towards the entire ac-

While KIADB had earlier alleged that the company failed to utilise the land since 2010, the latter said the agency did not allot a promised central piece of 136,33 acres that could have made the entire land contiguous. "The lack of availability of contiguous land rendered the petitioner (ArcelorMittal) unable to obtain the sanctions and permissions for the commencement of construction," the company's petition had said. Also, the continued uncertainty over the enhanced compensation for another 242 acres, which is still in litigation, has engulfed the entire project with uncertainty. The state too caused considerable delay in issuing requisite mining leases, which were es-sential for setting up the plant, according to the petition filed through counsel Mahesh Agarwal.

Trai Proposals on Sat Spectrum After **Chief Takes Office**

New Delhi: The Telecom Regulatory Authority of India will issue its recommendation on satellite spectrum allocation methodology and other pending matters after the appointment of a regular chairperson, an official source said. The position of Trai chairperson has been vacant since October 1 after the tenure of PD

Vaghela ended in September: Trai member Meenakshi Gupta is handling the additional charge of chairperson of the regulatory body.

"Trai chairperson will decide on the recommendation. We are almost ready with recommendations on satellite spectrum allocation but the final call will be taken by the chairperson," a senior Trai official said. The Department of Telecom had invited applications for the post in June and the last date for the same was in August.—PTI

Cricketers Likely to See Big Swing in Endorsement Fees Despite WC Loss

PERFECT PITCH Sports marketing companies seeking double-digit increase

Javed.Farooqui@timesgroup.com

Mumbai: Sports marketing companies that represent leading cricketers are seeking a double-digit increase in their endorsement fees notwithstanding India's loss to Australia in the ICC Men's Cricket World Cup final on Sunday.

They believe team India's dominant run in the World Cup until the finals, with everyone playing their role to perfection, will make these players even more popular in a country where cricket is akin to a religion. Cricketers can help brands build connections with consumers and improve visibility by cutting across barriers like geography and language, they said.

"We don't have the World Cup tag, but the players have walked away as heroes," said Nikhil Bardia, head of sponsorship sales and talent at Rise Worldwide, which manages Rohit Sharma, Hardik Pandya, and Jasprit Bumrah, among others. "I expect the endorsement value of Indian cricketers to increase by 30-40% because brands will continue to them for

Kohli Parts Ways with Cornerstone

sports management company that will manage his endorse-

ment deals, they said. Cornerstone Sport and Entertainment

was managing Kohli's brand endorsement deals. The former

Indian cricket captain and his wife, actor Anushka Sharma,

incorporated a new company called Nomad Management

LLP in May. — Our Bureau

FIND SOMEBODY

YOU CLICK WITH.

WITH A FEW CLICKS.

Mumbai: Star cricketer Virat Kohli has par-

ted ways with sports marketing firm Cor-

nerstone Sport and Entertainment, which is

owned by his friend Bunty Sajdeh, said peo-

ple with knowledge of the development. Koh-

li, whose brand value is estimated at \$177 mil-

lion (about ₹1,475 crore), will form a new

Matrimony 4

the

they

perfor-

med," he

way

have

Worldwide is in talks with brands for Sharma, who became the highest-scoring skipper in a single edition of a World Cup with 597 runs, Bardia said.

According to market estimates, top cricketers like Virat Kohli and Sharma charge anywhere between ₹3.5 crore to ₹7 crore per endorsement deal. In the case of other cricketers, the endorsement ranges from ₹1 cro re to ₹2 crore per deal. According to a report by

sports marketing agency GroupM ESP, the value of all sports endorsement deals in the country surged 20% year on year to ₹749 crore in 2022, with cricketers accounting for ₹640 crore, or 85% of the total. Aviral Jain, managing director, valuation advisory ser vices, of finance and risk advisory firm Kroll, said the endor-

CRICKETING HEROES We don't have the World Cup tag, but the players have walked away as heroes. I expect the endorsement value of Indian cricketers to increase by 30-40%

NIKHILBARDIA Head of Sponsorship Sales and Talent,

The Reliance Industries-owned Rise cricketers who have performed excep tionally well in the World Cup like Kohli and Mohammed Shami will go up.

"Individual cricketers, rather than the entire Indian team, will gain due to the strong performance of the Indian cricket team. The opportunity was to gain 2X, but that has come down by 50-60% due to the loss in the final match," Jain said.

Kohli was named player of the tournament, having scored 765 runs in 11 matches. Shami was the highest wicket-taker in the tour nament with 24 wickets in seven matches

Brand expert Harish Bijoor, however, feels that brands will not be willing to pay inflationary hikes to cricketers since India has lost the final. "If India had won the World Cup, I would have expected an inflation of 25-30% in the endor-sement fees of all cricketers," he said. Bardia of Rise World

> trends are going to play out in the coming months, Firstly, brands will do more long-term deals after benefiting from their associa tion with cricketers Secondly, brands will come up with interesting narratives in their marketing campa

wide said two key

igns with cricketers depending on the positioning of the players. "In endorsement space, there has been a segmentation of players, with Rohit and Virat at the top, followed by other established players like Hardik (Pandya)," he said.

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL BENCH AT HYDERABAD C.P. (CAA) NO. 65/230/HDB/2023 CONNECTED WITH

C.A. (CAA) NO.36/230/HDB /2023 IN THE MATTER OF COMPANIES ACT, 2013 (18 of 2013) IN THE MATTER OF SECTIONS 230 AND 232 READ WITH and other Applicable Provisions of the Companies Act, 2013, read with the Companies (Cor Arrangements and Amalgamations) Rules, 2016

> IN THE MATTER OF SCHEME OF AMALGAMATION NIRMANVRIDHI CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED

(TRANSFEROR COMPANY) WITH **EIGEN VENTURES PRIVATE LIMITED**

(TRANSFEREE COMPANY) M/s. "Nirmanyridhi Constructions Private Limited" is a Private Limited Compa

incorporated under the provisions of Companies Act, 1956 on 16.05.2011, bear CIN: U45400DL2011PTC219248 and registered office is situated at A-2/1, Vasant Vi South West Delhi, Delhi -110057 Represented by its Director, Thakur Dutt . Transferor Compa

M/s. Eigen Ventures Private Limited is a Private Limited Company incorpora under the provisions of Companies Act, 1956 on 13,04,2011, bearing C U45209TG2011PTC073836, having its registered office at Kuss Farms, Sy. No. 2 Beside Brown Town Resorts Venkatapur Road, Kanakamamidi Vili Moina Bad Man Rangareddy, Telangana 501504, Represented by its Director, Sonal Somani Gupta.

NOTICE OF HEARING OF PETITION UNDER RULE 16 OF THE COMPANIES

(COMPROMISES, ARRANGEMENTS AND AMALGAMATIONS) RULES, 2016 lotice is hereby given that a Petition under section 230 to 232 of the Companies 2013, for an order sanctioning the Scheme of Amalgamation ("Scheme") between Nirmanwridhi Constructions Private Limited (Transferor Company) and Eigen Ventu Private Limited (Transferee Company) and vide order dated 31.05.2023 in Compa Application No. CA (CAA) No. 36 of 2023, the requirement of meetings of the memb and creditors of Eigen Ventures Private Limited (Transferee Company) has been wait is per the order dated 31.10.2023 in Company Petition No. CP(CAA) No. 65 of 2023 Hon'ble Tribunal has fixed the date for hearing before the Hon'ble National Company L

Tribunal, bench at Hyderabad on 13.12,2023. Any person desirous of supporting or opposing the said Petition should send to Petitioner's advocate, notice of his intention, signed by him or his advocate, with his na and address, so as to reach the Petitioner's advocate not later than two days before date fixed for the hearing of the Petition (i.e. on or before 13th day of December, 202 Where he/she seeks to oppose the Petition, the grounds of opposition or a copy of affidavit shall be furnished with such notice. A copy of the Petition will be furnished by tundersigned to any person requiring the same on payment of the prescribed charges

Rohit Pogula Advoc (Advocate for Petitio Flat No.402, Kaizen Imperial Heights, Municipal No.6-3-121 Street No.2, Umanagar, Begumpet, Hyderabad, Telangana 5000 Date: 20.11.2023

ED Files Complaint Against Amway India for Promoting 'Illegal' Pyramid Scheme

Co says committed to regulatory compliance

Our Bureau & Agencies

New Delhi: The Enforcement Directorate has filed a prosecution complaint against Amway India Enterprises, stating that the direct-selling company has been promoting an illegal monev-circulation scheme and misleading the public with promises of high commissions through member enrolments.

Amway said it is "committed to regulatory compliance" and 'will vigorously defend itself".

In a post on microblogging platform X Monday, the ED that probes money-laundering cases said it filed the prosecution complaint in a Hyderabad court. ED's prosecution complaint is similar to the charge sheet filed by other investigative agencies.

In a statement later, the ED said the allegations against Amway also included operating a pyramid scheme under the guise of direct selling, focusing more on recruiting members than selling products. The agency said it has identified proceeds of crime worth ₹4.050 crore and attached assets valuedat ₹757 crore. "The prosecution complaint,

currently, filed by the Enforcement Directorate pertains to the investigation dating back to 2011, and since then, we have been cooperating with the depart ment, and have shared all the in formation as sought from time to-time," an Amway spokesper son said.

Since Amway began its operations in India 25 years ago, it has been "committed to legal and regulatory compliance, and has diligently maintained a culture of compliance and integrity to the present day", the spokesper son said.

"We want to reiterate our continued confidence in the Indian legal and judicial system following the due process of law as we pursue our legal rights," the spokesperson said.

The ED said in its probe, it found that Amway was promoting a pyramid scheme "in the guise of "direct selling.

"Instead of selling goods directly to the end consumer, Amway floated a multi-level marke ting scheme of members and introduced many intermediaries in the name of distributors," it said. "The scheme does not fo cus on sale of products but survives primarily on enrolling members," the ED said.

The agency said once a newcomer is convinced to pay money through someone who has re ferred him or her to the compa ny, he or she becomes a repre sentative, and to earn commis sion, he or she has to enrol new



NOTICE OF EXTRA-ORDINARY GENERAL MEETING OF ANANT RAJ LIMITED Notice is hereby given that an Extra-Ordinary General Meeting ("EGM") of the Company would be held on Thursday, December 14, 2023 at 3:15 p.m. at Plot No. CP-1, Sector-8, IMT Manesar, Gurugram, Haryana - 122951. The dispatch of Notice for the EGM of the Company has been completed on November 20, 2023 by (a) email to the members whose email addresser are registered with the Company/Depository Participant and (b) physical copies sent by permitted mode to members who have not registered their email addresses as mentioned above. Notice of the EGM is available on the website of the Company at www.anantrajlimited.com, on

the website of Stock Exchanges i.e. BSE Limited at www.bseindia.com & National Stock Exchange of India Limited at www.eveindia.com. National Securities Depository Limited ("NSDL") at www.eveing.nsdi.com. In compliance with the provisions of the Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended from time to time and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, and pursuant to the provisions under Secretarial Standards on General Meetings (SS-2), the Company is providing to all its members, the facility to cast their vote by electronic means (remote e-voting) on all the resolutions as set out in the notice of the EGM. Only a person holding shares either in physical or in dematerialized form as on December 7, 2023, "the cut-off" date are being provided with the facility to cast their vote electronically through the e-voting services provided by NSDL ("remote e-voting") or through ballot at the EGM, on the resolution set forth in the Notice. The voting rights of the members shall be in proportion to their shares of the paid up equity share capital of the Company as on the cut-off date. A person who is not a member as on the cut-off date shall treat this notice for information purpose only. For further details related to

procedure of e-voting please refer notice of the EGM. The remote e-voting person will commence on Monday, December 11, 2023 (9:00 A.M. IST) and ends on Wednesday, December 13, 2023 (5:00 P.M. IST). During this period, members may cast their vote electronically and the remote e-voting module shall be disabled by NSDL thereafter. The facility for voting through ballot paper will also be made available at the EGM and Members. attending the EGM, who have not already cast their vote by remote e-voting shall be entitled to vote at the venue of the EGM through ballot paper. The members who have cast their vote by remote e-voting may attend the EGM but shall not be entitled to cast their vote again and his vote, if any, cast at the Meeting shall be treated as invalid. Once the vote on a resolution is cast by a member, it cannot be subsequently changed or voted again.

Any person, who acquires shares and become the member of the Company after dispatch of the Notice of EGM and holding shares as on the closing of cut-off date i.e. December 7, 2023, may obtain their login/user ID and password for e-voting from National Securities Depository Limited (NSDL) by sending a request at evoting@nsdLco.in. and then cast their vote accordingly. For further details, please refer to the notes given in the EGM Notice.

The Board of Director of the Company has appointed Ms. Priya Jindal (Membership No. F12506), the Practicing Company Secretary as Scrutinizer for conducting the remote e-voting and the voting process at the meeting in affair and transparent manner.

The result of the e-voting/voting at EGM shall be declared within 2 working days of conclusion of the meeting by the Chairman of meeting or by any other person authorized by him in that behalf. The result declared, along with the Scrutinizer's Report, shall be displayed at the Registered Office of the Company and also be placed on the Company's website, NSDL's website and be communicated to the Slock Exchanges where the Company's shares are listed.

In case of any queries/grievances regarding e-voting, members may refer to 'Frequently Asked Questions' (FAQs) for shareholders and 'e-voting manual' for shareholders available in the help section of NSOC's e-voting website www.evoting.nsdl.com or send a request to Ms. Pallavi Mhatre at evoting@nsdl.co.in or at National Securities Depository Limited, Trade World, 'A' Wing, 4th Floor, Kamata Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai 400 013 or at Telephone Nos.: +91 22 2499 7000, +91 22 4886 7000. Members may also write to Mr. Manoj Pahwa, Company Secretary and Mr. A.K Prashar, Senior Manager, Secretarial at manojpahwa@anantrajlimited.com /ak.prashar@anantrajlimited.com or at Head office of

For Anant Raj Limited Sd/-Manoj Pahwa

Place : New Delhi Date : November 20, 2023

Company Secretary Membership No. A7812





We know that you are pivotal to your world. We also know that while taking care of everything and everyone else, you tend to neglect your own health, often resulting in aches and pains. At VARDAN, our therapists can help you break free from chronic body pain and recover holistically with the specialized approach of FMT™. So, give your world the solid foundation it needs by prioritizing your own health. Say #ItStartsWithMe

What is FMT™ (Functional Manual Therapy®)?

· A unique and comprehensive approach to patient care · Diagnosing and treating the root cause of the pain · A system of techniques that focuses on function and movement for efficient performance

। नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । मंगलवार, 21 नवंबर 2023

कर रही थी। मामले में पति को वेंगलर ने आगे कहा कि अदालतों को नागरिकों की स्वतंत्रता पर विचार करते हुए सीमित शीर्ष अदालत ने टाजिट अग्रिम जमानत देने

नई दिल्ली: अयोध्या राम मंदिर में जनवरी के

अंतिम सप्ताह में होने वाली रामलला की प्राण प्रतिष्ठा

के भव्य आयोजन को देखते हुए भारतीय रेलवे भी

देशभर से वड़े स्तर पर अयोध्या के लिए स्पेशल टेन चलाने की योजना भी है। माना जा रहा है कि एक

ज्यादा स्पेशल ट्रेन चला सकता है। देश के तमाम

जोन से जरूरत के मुताविक अलर्ट रहने के लिए

इस्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड

अभिरुचि की अभिव्यवित

छः तेन हाईबेज/एक्सप्रेसकेज के प्रवातन एवं रखरखाव में अनुभव रखने वाली प्रतिष्ठित कंपनियों से "किमी. 0+000 से

किमी. 302+317 तक वागरा-लखनक एक्सप्रेचचे, इसकी सर्विच रोकों, डीपों, चनी वानुशेनेक पदार्थों और परियोजन

मुक्तिवाओं आदि के रखरखाव हेतु ठेकेदार का चयन" परियोजना में सामान्य रखरखाद कार्यों हेतु सक्कॉन्ट्रैक्टर के रूप में

संबद्ध होने हेतु अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) आमंत्रित की जाती हैं। **निविदा अर्झवी** : **2023_IRCON_175064_1**

अधिक जानकारी एवं अपटेट हेतु, कृपया इरकॉन की वेबलाइट www.ircon.org एवं www.etenders.gov.in प

इस्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड

अभिरुचि की अभिव्यक्ति

सुरंग एवं सठक निर्माण का अनुभव रखने वाली प्रतिषित कंपनियों से "ईपीसी मोड पर मिजोरम राज्य में एनएव-6 वे

सैरंग-फाईबॉक खण्ड पर किमी. 10.600 से किमी. 15.200 तक (पैकंज-2) 2.5 किमी. की ट्रिक्न ट्यूब यूनी-डायरैक्शनस

बाइजॉल बाईपास टनल एवं 2.1 किमी. की इसकी पहुँच सड़कों का निर्माण" परियोजना में ट्विन ट्यूब टनल कार्यों के आंशिक

निष्पादन हेत् सबकॉन्ट्रैक्टर के रूप में संबद्ध होने के लिए अमिरुचि की अमिय्यक्ति (ईओआई) आमंत्रित की जाती हैं

अधिक जानकारी एवं अनरेट हेतु, कृपवा इरकॉन की वेबसाइट <u>www.kcon.org</u> एवं <u>www.etenders.gow.in</u> पर निविदा

खण्ड देखें। संशोधन / शुद्धि पत्र, यदि कोई होगा तो, केवल वेबसाइट पर होस्ट किया जाएगा। म**सप्रकाक /व्यवसाय विकास**

गई। इस संदर्भ में प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 700/2023, दिनांक 04.11.2023 को

स्थानीय पुलिस द्वारा हर संगव कोशिश के बाद भी इस मृत महिला का कोई भी

पहचान की अपील

निविदा खण्ड देखें। संशोधन / शुद्धि पत्र, वदि कोई होगा तो, केवल वेबसाइट पर होस्ट किया जाएगा।

र्दकोवार्ड सं : इस्कॉन/बीडी/य्पीईवार्द्रडीए/आगरा लखनक/ईकोवार्द्र/11/2020

ईजोजाई सं.: इरकॉन/बीडी/एनएकवाईडीसीइल/रपैडबी/ईजोजाई/11/2023

पहचान की

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है

कि एक महिला का शव जिसका नामः नामालूम,

पत्नीः नामालूम, पताः नामालूम, जिसकी उम्रः

लगभग ७५ साल, कदः ४'११", रंगः गोरा, चोट

का निशानः दुर्घटना के कारण सिर पर चोट,

पहचान चिद्धः बाएं हाथ पर टैटू 'सुखवीर सिंह

केला देवी" बना हुआ, पहनावाः क्रीम रंग का सूट

और सलवार पहने हुए है। जो दिनांक

04.11.2023 को नाला के पास, हनुमान मंदिर के

सामने, नंगली पूना, दिल्ली में मृत अवस्था में पाई

पुलिस थाना स्वरूप नगर, दिल्ली में दर्ज है।

ईओआई जमा करने की अंतिम तिथि

निविदा बाईबी: 2023_IRCON_175132_1

ईओआई जमा करने की अंतिम तिथि

con.org, CIN - L45253DL1976GC

25.11.2023 को 15.00 बजे तक

org. CIN - L45203DL1976GOI00817

30.11.2023 को 15.00 बजे तक



सप्रीम कोर्ट ने विधेयकों को मंजुरी देने में देरी करने का आरोप लगाने वाली केरल सरकार की याचिका पर सोमवार को केंद्र सरकार और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के ऑफिस से जवाब तलब किया। याचिका में आरोप लगाया गया है कि राज्यपाल विधानसभा की ओर से पारित कई विधेयकों को मंजूरी नहीं दे रहे हैं। चीफ जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस जे. बी. पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने सीनियर वकील के. के. वेणुगोपाल की दलीलों पर गौर किया। इसमें आठ विधेयकों को मंजूरी देने में राज्यपाल की ओर से देरी किए जाने का आरोप लगाया गया। अदालत अब शुक्रवार को सुनवाई करेगी।

🗓 🖬 फार्मेसी Lens एजुकेशन में बदलावों की समझिए खबरों के पहल?

फार्मेसी कमिशन बिल के जरिए फार्मेसी एजुकेशन सिस्टम में बड़े बदलावों का खाका तैयार किया गया है। फार्मेसी एजुकेशन की क्वॉलिटी को बेहतर बनाने के साथ-साथ फार्मेसी क्षेत्र में हो रही नई- नई रिसर्च को अपनाने का लक्ष्य रखा गया है। फार्मेसी इंस्टिट्यूशन के असेसमेंट की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने की कोशिश भी इस बिल के जरिए की जा रही है। फार्मेसी एजुकेशन बोर्ड, फार्मेसी असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड, फार्मेसी एथिक्स एंड रजिस्ट्रेशन बोर्ड बनाने का प्रावदान किया गया है। फार्मेसी संस्थानों में

IIT में अब शॉर्ट टर्म स्किल कोर्स भी

स्किल कोर्सेज को लेकर नई शुरुआत की जा रही है। शार्ट टर्म स्किल कोर्सेज पर भी फोकस है। IIT मंडी ने ऐसी कई पहल की है। IIT मंडी के निदेशक प्रफेसर लक्ष्मीधर वेहरा ने कहा कि IIT का iHub विशेष तरह के कौशल विकास कार्यक्रम चला रहा है। इससे युवाओं को रोजगार मिल रहा है।

📵 पश्चिम रेलवे - रतलाम मण्डल

ई-निविदा सूचना NIT No.: RTM-GSU-PSSA-1

दिनांक : 13.11.2023 गतिशक्ति इकाई (मण्डल कार्यालय) पश्चिम रेलवे. रतलाम भारत के राष्ट्रपति की ओर से निम्नलिखित कार्य के लिये "खली निविदा" ई-निविदा के माध्यम से वेबसाइट www.ireps.gov.in पर आमंत्रित करते हैं। विवरण इस प्रकार है - ई-टेंडरिंग: RTM-GSU-PSSA-1 कार्य का नाम: Reques for Proposal (RFP) for appointment of Project Supervision Services Agency (PSSA) for various construction site of works in the jurisdiction of Chief Project Manager Gati Shakti Unit Ratlam, Western Railway 3. अनुमानित मात्र: As per tender schedule 4. अनुमानित लागतः Rs. 13739410.00 5. बयाना राशी: Rs. 218700.00 कोर्सेज को भी मार्केट डिमांड के हिसाब से तैयार किया जाएगा।

6. कार्य समापन अवधि: 12 Months 7. Eligibility Conditions, Special Financial & Technical Criteria: (i) Please refer Para 3.1.2 (A) & (C) of Model document of Request for Proposal for appointment of PSSA attached in documents. (ii) Please refer Para 3.1.2 (B) of Model document of Request for Proposal for appointment of PSSA attached in documents. B. वैद्याहर पर उपानोह documents. 8. वेबसाइट पर अपलोड करने की तिथि: 13/11/2023 9. निविदा सुबना, अहाता शर्ते एवं अन्य शर्ते वेबसाइट www.ireps.gov.in पर उपलब्ध है-

उप मुख्य इंजी. (गतिशक्ति) रतलाम _{805/1/329} पश्चिम रेलवे, रतलाम मण्डल

िनिदा आगंधण सूचना एन.एफ.एस. विजयपुर निम्नलिक्षित कार्यों/आइटमों के लिए दि—योली पदिति के तहत जेम. पर विस्त, नई दिल्ली: देश की IIT में अव जिम निविदा संख्या : GEM/2023/B/4191259, दिनांक: 09.11.2023; उपकरणें, स्ट्रक्यर पाईचिंग आदि की पेटिंग से कार्य हेतु सार्विक दर अनुबंध गिविदा प्रस्तुत करते की अंतिम पाईपिंग आदि की पेटिंग के कार्य है तिथि 18.12.2023 सांय 03.00 बजे 2 जेम निविदा संख्या : GEM/2023/B/4213331 for "Bagging and loading of Urea into Rail wagons and Road trucks & assistance in maintaining & up-keeping conveyor system, plant machineries of all three loading platforms for the year 2023-2025" अनुमानित लागत % 2005 लाख यो वर्ष के लिए. जीएसटी अविरिक्त, निविदा प्रस्तुत करते की अतिम त्रिथ्य 16.12.2023, 15.00 (ISD)

निविधा संख्या NFV/PUR/DAP221161/Y, GeM BID: GEM/2023/B/4213955, Dated: 15-11-2023; निविदा विवरणः अमोनिया-1 अनुभाग के लिए 12 क्यूबिक मीटर सेकेंडरें रिकॉर्मर कैटेंलिस्ट की खरीद, माग-1 बोली खोलने की दिनांक 15.12.2023 संपर्क संनं 1 चो. 9463834587 E-mail: <u>skrai@infl.co.in</u>, संनं 2 07544-273338 एवं संनं 3 07544-273050, 273691 <u>ayush@infl.co.in</u>. विस्तृत जानकारी के लिए एनएफएल की वेबसाईट http://www.nationalfertilizers.com/, https://gem.gov.in/ अस्वया https://eprocure.gov.in. वेखे

नेशनल फर्टिलाइजुर्स लिमिटेड

(बारत शरकार का उपक्रम) विजयपुर इकाई, गुना (म.प्र.), 473 111

उत्तर मध्य रेलवे

हेतु आनलाईन **(ई- टेन्डरिगं)** के माध्यम से खुली निविदा आमंत्रित करते हैं। कार्य का नामः सप्लाई एंड रिन्यूअल अनुमानित लागत (र): 9693137.54 ई-निविदा सूचना ऑफ़ चैनल स्लीपर फिटिंगस ऑन सं.ः झाँसी-इन्जी०-वेरियस ब्रिज ऑफ़ हीईएन/ ईस्ट/झॉसी £ -2023-159

अमानत राशि (₹): 193900.00 निविदा बन्द होने की तिथि: 11.12.2023 at 15:00 hrs

अमानत राशि

₹ 217200.00

स्वीकृत पत्र जारी होने के समय से कार्य समापन/ अवधि की तिथिः 06 माह

 निविदा दिनांक 11.12.2023 को 15:00 बजे तक ऑन लाईन जमा कर सकेंगे।
 पूर्ण विवरण एवं निविदा को प्रस्तुति करने के लिए कृपया भारतीय रेल की वेबसाइट

www.ireps.gov.in देखें। 1 North central railways 2 @CPRONCR @ @northcentralrailway www.ncr.india

उत्तर मध्य रेलवे ई-टेन्डरिंग निविदा सूचना

भारत के राष्ट्रपति की ओर से एवं उनके लिये मण्डल रेल प्रबन्धक/कार्य/झाँसी निम्नलिखित का

हेतु आनलाईन (ई-टेन्डरिगं) के माध्यम से खुली निविदा आमंत्रित करते हैं। कार्य का नाम ₹ 13433539.70

नोडिंग, लीडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ़ मिसलीनिअस पी.वे. ह्याँसी-इन्जी0-मटेरियल बाय ट्रक/ट्रेलर फ्रॉम एनी स्टेशन ट्र एनी स्टेशन बिटवीन वेरियस स्लीपर प्लांटस. एसएसई/पी.वे./डिपो एं 2023-157 त्सएसई/पी.वे./ ट्रैक डिपो झाँसी ऑफ़ एनसीआर।

निविदा बन्द होने की तिथि: 11.12.2023 at 15:00 hrs. स्वीकृत पत्र जारी होने के समय से कार्य समापन/अवधि की तिथि: 24 माह

नोटः- (1) निविदा **दिनांक** 11.12.2023 को 15.00 **बजे** तक आनलाईन जमा कर सकेगें। (2) पूप

विक्रण एवं निविदा को प्रस्तुति करने के लिये भारतीय रेल के बेवसाईट www. 1879/23 (A



- Cotton
- Linen

रेल भूमि विकास प्राधिकरण

(रेल मंत्रालय, भारत सरकार का सांविधिक प्राधिकरण) धूनेट नं, 702-बी, 7वां तल, कन्नेक्टस टॉवर-2, डीएमआरसी व्हेग, अजगेरी गेट, नई दिल्ली-110002 कोगः +91-11-232328 फेक्स : +91-11-23232855 ई-निविदा के माध्यम से प्रस्ताव हेतु अनुरोध

इंजीनियरिंग, क्रय एवं निर्माण (ईपीसी) मोड पर एयर कॉनकोर्स सहित गुड़गाँव रेलवे स्टेशन को

गोंड्यूलर अवधारणा घर प्रमुख उल्लंबन के लिए प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी)

प्री-बिंद मीटिंग : 4 दिशम्बर, 2023 को 11.30 वर्ज स्थान : आरएलडीए कार्यालय, नई दिल्ली ऑनलाइन ई-बोली जमा करने की अंतिम तिथि व समय : 10.01,2024 को 15.00 बजे तक

परियोजना की अधिक जानकारी हेतु. कृपवा हमारी वेबसाइट www.rida.indianrailways.gov.in थ

वहासक प्रशंसक / निविद्य

किसी भी स्पष्टीकरण के लिए निम्नलिखित से सम्पर्क कर सकते हैं

ch@rlda.railnet.gov.in amtender@rlda.railnet.gov.in

चंतुका गहराकाक/आर्किटेक्ट भी: 75078 96237

Anant Rai Limited

vww.evoting.psdl.com पर भी उपलब्ध है।

रतदान नहीं किया जा सकता।

ई-प्रोक्योरमेट पोर्टल www.tenderwizard.in/RLDA पर शीर्षक 'ई-टेंबर' के अंतर्गत देखें।

तोटः कोई भी शुद्धिपत्र या परिशिष्ट केवल उपरोक्ता वेबसाइटों पर प्रकारित किया जाएना (सी.) ठाठ०० ১४०११

अनंत राज लिमिटेड की असाधारण आम बैठक की सूचना

तदहारा सचना दी जाती है कि कंपनी की असाधारण आम बैठक ("ईजीएम") गुरुवार, 14 दिसंबर 2023

मो अपराह्न 3:15 बजे प्लॉट नंबर सीपी-1, सेक्टर-8, आईएमटी मानेसर, गुरुव्राम, हरियाणा -122051

र आयोगित की जाएंगे। कंपनी के ईजीएम सूचना के प्रेषण का कार्य (क) ईमेल द्वारा उन सदस्यों को जिनके ईमेर

हो कंपनी,डिपॉनिटरी पर्टिसिपेट के साथ पंत्रीकृत हैं और (ख) भैतिक प्रतियां अनुमत माध्यमों से उन सदस्यों को

जिन्होंने अपना इंगेल यस पंजीकृत नहीं किया है, 20 नवंबर 2023 को पूरा कर लिया गया है। ईजीएम की सूचन

हंपनी की वेबसाइट www.anantrajlimited.com, स्टॉक एकाचेजों यानी बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट

www.bseindia.com और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.nseindia

om और ई-बोर्टेंग एजेसी यानी नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी सिमिटेड ('एनएसडीएस') की वेबसड्ट

रमय-समय पर संशोधित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के साथ पठित कंपनी अधिनियम

2013 की धारा 108 के प्रावधानों और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटन अमेशाई) विनियम, 2015 के विनिय

44 के अनुपालन में तथा सामान्य बैतकों पर सचिवीय मानकों (एसएस-2) के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी अप

सभी सदस्यों को ईजीएम की सूचना में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों (रिमोट ई-वोटिंग) द्वारा अय

वोट डालने को संविधा प्रदान कर रही है। केवल वह व्यक्ति जो 'कट-ऑफ' तारीख यानी 7 दिसंबर 2023 तक भौतिय

पा अभीतिक रूप में शेयर धारण करते हैं, उन्हें सूचना में निर्धारित संकरण पर एनएसडीएल द्वारा प्राथधानित ई-वोटिंग

ावाओं ('रिमोट ई-चोटिंग') के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से या ईबोएम में बैलट के माध्यम से अपना वोट ढालने के

तुविधा प्रदान की जा रही है। सदस्यों के मताधिकार कट-ऑफ तिथि तक कंपनी की प्रदत्त इक्विटी शेवर पूंजी के उनवे

शेवरों के अनुपात में होंगे। जो व्यक्ति कट-ऑफ तिथि पर सदस्य नहीं हैं, वह इस नोटिस को केवल सूचना के उद्देश्य रं

देसंबर, 2023 (शाम 5:00 बने भा.मा.स.) को समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान, सदस्य इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपन

ानदान कर सकते हैं और उसके बाद एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई-बोर्टिंग मॉडवूल को अक्षम कर दिया जएगा। ईजीएम

में बैलट के मध्यम से मतदान करने की सुविधा भी उपलब्ध करई जाएंगी और ईबीएम में चाग लेने वाले सदस्य

जन्तोंने पहले से ही रिमोट ई-बोटिंग द्वारा अपना मतदान नहीं किया है, वे ईनीएम स्थल पर बैलट के माध्यम से मतदान

हरने के हकदार होंगे। जिन सदस्यों ने रिपोट ई-वोटिंग द्वारा अपना मतदान किया है, वे ईनीएम में शामिल हो सकते

ै, लेकिन दोबारा वोट डालने के हकदार नहीं होंगे और बैठक में डाला गया उनकर वोट, यदि कोई हो, अमान्य मान

वएगा। एक बार किसी सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर चोट डालने के बाद, इसे बाद में बदला नहीं जा सकता या दोबार

कोई भी व्यक्ति, जो ईजीएम की सूचना भेजने के बाद रोपर अर्जित करता है और कंपनी का सदस्य बन जाता है तथ

कट-ऑफ तिथि यानी **7 दिसंबर, 2023** के समापन पर शेयर रखता है, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेर

'एनएसडीएल') को evoting@nsdl.co.in पर अनरोध भेजकर ई-चेटिंग के लिए अपना लॉगिन/यजर आईर्ड

और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है और फिर तदनुसार अपना मतदान कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए, कृपय

कंपनी के निदेशक मंडल ने रिमोट ई-वोटिंग और बैठक में मतदान प्रक्रिया को पास्ट्रशी तरीके से संचालित करने में

लेग प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव सन्त्री प्रिया जिंदल (सदस्यत संख्या F12506) को संबोधक के रूप में नियक्त किया है

-वोटिंग/ ईनीएम में वोटिंग कर परिणाम बैठक के अध्यक्ष या उसके द्वारा अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बैठक रे

मापन के 2 कार्य दिवसों के भीतर घोषित किया जाएगा। घोषित परिणाम, संबोधक की रिपोर्ट के साथ, कंपनी व

जीकृत करर्यालय में प्रदर्शित किया जाएगा और कंपनी की वेबसाइट, एनएसडीएल की वेबसाइट पर भी अपलोड किय

ई-वोटिंग के संबंध में किसी भी प्रश्न/शिकायत के मामले में, सदस्य एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइ

www.evoting.nsdl.com के सहाचता अनुभाग में उपलब्ध शेवरपारकों के लिए 'Frequently Asked

Questions' (FAQs) और रोगरधारकों के लिए 'e-voting manual' का संदर्भ ले सकते हैं या सुझी

ल्लवी महान्ने को evoting@nsdl.co.in पर या नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, टेंड कर्ल्ड, 'ए' विंग

वीधी मॅजिल, कमला मिल्स कंपाउंड, सेनापति बापट मार्ग, लोक्षर परेल, मंबई 400 013 पर वा टेलीफोन नंबर : - +9

22 2499 7000, +91 22 4886 7000 पर अनुरोध भेजें। सदस्य श्री मनोज पाहवा, कंपनी सथिव और श्री ए.के.

पराशर, वरिष्ठ प्रबंधक, संधिवीय को manojpahwa@anantrajlimited.com/ ak.prashar@

हएगा तथा स्टीक एक्सचैनों को सुचित किया जाएगा जहां कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं।

nantrajlimited.com पर या कंपनी के प्रधान कार्यालय को भी लिख सकते हैं।

गानेगा। ई-वोटिंग की प्रक्रिया से संबंधित अधिक जानकारी के लिए कृपवा ईजीएम की सुचना देखें। रेमोट ई-चोटिंग अवधि सोमवार, 11 दिलंबर, 2023 (सुबड 9:00 बने धा.मा.स.) से शुरू होगी और बुधवार, 13

निर्माण अर्थाय बोली दस्तारेज शुल्क बोली प्रतिषृति कार्य की अनुमानित लाग

अनंत राज लिमिटेड

(मीआईएन : L45400HR1985PLC021622)

पंजीकृत कार्यालयः प्लॉट नंबर सीपी-1, सेक्टर-8, आईएमटी मानेसर,

गुरुग्राम, हरियाणा-122051 टेलीफैक्स: (0124) 4265817,

प्रधान कार्यालयः एच-65, कर्नोट सर्कस, नई दिल्ली-110001

रहभाष : 011-43034400. फैक्स : 011-43582879

a@anantrajlimited.com, वेबसाइट: www.anantrajlimited.com

ई-बोली पुष्रवाप हेंद्र - की सूरज सिंह मो.; 95996 53865

रू. 29,500/-(18% जीएसटी सहित) रू. 1,00 क्योंस

- Silk
- Handloom

Vedding & Occasional Collection

By Economy Sales: 9212758425

Traditional Embroiden

kurta Pajama Thread Work Sequence Work

with churidar/Trouser

समापन अवधि

type of

 GURUGRAM- Gymkhana club, Sector 29, (Near Hotel Crown Plaza) PUNCHKUIAN ROAD, Garwal Bhawan, (Near Jhandewalan, Gole Chkr.) WAZIRPUR A-5, Near Richi Rich Banquet (Opp. Shalimar Bagh

पश्चिम रेलवे - रतलाम मण्डल

मंडल रेलप्रबंधक/मंडल कार्यालय (कार्यलेखा शाखा), पश्चिम रेलवे रतलाम भारत के राष्ट्रपति को ओर से निम्नलिखित कार्य के लिए "खुली निविदा" ई-निविदा के माध्यम से वेब-साईर

3.09.14.996.13 3.04,600.00 Chanderiya - Ratlam Section: Carr yout various P. Way Maintenance Any Track RTM-2023-4,57,45,180.97 3,78,700.00 24-132

Ratlam - Khandwa Section : Carr yout various P. Way Maintenance activitie

RTM-2023-2,71,12,485.57 2,85,600.00

Ratlam - Khandwa Section : Carry out various P. Way Maintenance activities in connection with outsourcing under Jurisdiction of SSE (PW)BNG मानित मात्रा: As per Tender Schedule, निविदा प्रयत्न का मल्य: Nil. वेब-माईट पर अपलोड

मंडल रेलप्रबंधक (कार्यलेखा) रतलाम

पश्चिम रेलवे, रतलाम मण्डल

माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण के समक्ष

सी.पी. (सीएए) नं. 65/230/एचडीबी/2023 सी.ए. (सीएए) नं. 36/230/एचडीबी/2023 से संबद्ध

तथा 232 के मामले में

ईजेन वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड (अंतरिती कंपनी)

(अंतरक कंपनी)

प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, विसवा सीआईएन : U45400DL2011PTC219248 है और पेनीकृत कार्पालय A-2/1, विद्यार, दक्षिण परिचम दिल्ली, दिल्ली - 110057 में स्थित है, इसके निदेशक, ठाकुर दत्त हारा प्रतिनिधित्व।

मं इंजेन वेंचमं प्राइवेट लिमिटेड, 13.04.2011 को कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत निर्णामत एक प्राइवेट मेटेड कंपनी, विश्वका सीआईएन : II45209TG2011PTC073836 हैं और पंजीकृत कार्यात्तय कुमा फार्म्स, प्रसंबाई नंबर 5, बाहन टाउन रिसोर्ट्स पैकटपुर टेड के बगल में, कनकमार्मियी मिलेन मोइना बाद मंडल रंगोर्ट्सी, तेलंबना 501504 में त है, इसके निदेशक सोजल सोमानी गुता हारा प्रतिनिधन्त

पनी (समझौता, ठहराव और समामेलन) निषम, 2016 के नियम 16 के तहत याचिका की मुनवाई की सूचन

नी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 232 के तहत निर्माणवृद्धि कंस्ट्रक्शन प्राइवेट शिमिटेड ("अंतरक कंपनी") औ वेवर्स प्राइवेट लिमिटेड (अंतरिती कंपनी) के बीच समामेलन की योजना ('योजना') को मंत्ररी देने के आदेश के लिए पांचिका और कंपनी आपेदन संख्या सीए (सीएए) संख्या 36/2023 में दिनांक 31.05.2023 के आदेश के तहत, ईंगे-र्स प्रदुवेट लिपिटेड (ऑतरली कंपनी) के सदस्यों और लेनदारों को बैठकों को आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। नी याचिका संख्या थीपी (सीएए) संख्या 65/2023 में आदेश दिनांक 31.10.2023 के अनुसार, माननीय न्यायधिकर ाननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, हैदराबाद पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए 13.12.2023 की तारीख तय की है। चित्रा वर समर्थन या विरोध करने के इच्छूब किसी भी व्यक्ति को माधिकाकर्ता के वकील को अपने इरादे की सूचना, ने या अपने वकील द्वारा हस्ताक्षरित, उसके नाम और पते के साथ इस प्रकार भेजनी होंगी कि यह वाधिका की सुनवा नेका तारीख (अर्थात 13 दिसंबर, 2023 को या उससे पहले) से दी दिन पहले तक पाणिकरकर्ता के वकील तक पहुंच । जहां यह यथिका का विरोध करना चाहता है, विरोध के आधार या उसके हलफनामें की एक प्रति ऐसे नोटिस के सा

रोडित पोगुला एडवोकेट. फ्लैंट नंबर 402, काइबन इंपीरियल हाइटस, नगर निगम नंबर 6-3-1219/7. स्ट्रीट नंबर 2, तमानगर, बेगमपेट, हैदराबाद, तेलंगाना 5000%

नैशनल फार्मेसी कमिशन के ड्राफ्ट पर लोगों से मांगी राय विशेष संवाददाता, नई दिल्ली

है। विल में फामेंसी एजकेशन सिस्टम को वेहतर बनाने से लेकर आधुनिक रिसर्च को बढ़ावा देने का है प्रस्ताव है। बिल में 1948 के फार्मेसी ऐक्ट

को निरस्त करने और भारतीय फार्मेसी परिषद की जगह एक नैशनल कमिशन (राष्ट्रीय आयोग) बनाने का प्रावधान किया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बिल के मसौंदे को अपनी वेबसाइट पर डाला है। इस पर जनता की राय मांगी है। प्रस्तावित विश्वेयक का मकसद एक ऐसा फार्मेसी एजकेशन सिस्टम बनाना है, जो गुणवत्तापूर्ण और किफायती फार्मेसी एजकेशन तक पहुंच को आसान बनाए। फार्मेसी इंस्टिट्यूशन के असेसमेंट और रेटिंग को लेकर भी वोडं बनाने की वात कही गई है। मंत्रालय की वेबसाइट (न्यूज एंड हाइलाइट्स सेक्शन) में विल का मसौदा अपलोड किया गया है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने नैशनल

फार्मेसी कमिशन (NFC) बनाने का

प्रस्ताव आम जनता के सामने रखा है।

मंत्रालय ने इसके बिल का मसौदा जारी

कर इस पर आम जनता की राय मांगी

अंदर की बात नैरानल

दाखिले की प्रक्रिया में भी जरूरी बदलाव किए जाएंगे। पत्रमेंसी

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता मेरठ वृत्त लो0नि0वि0, मेरठ ई-प्रोक्योरमेन्ट निविदा सचना No. 4425/11 Cashier(PD-Meerut)-M.C./23-24 Dated: 04-11-2023

1- महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश की ओर से निम्न कार्य हेतु ऑन-लाईन निविदायें http://etender.up.nic.in के माध्यम से लो0नि0वि0 में 'ए' मार्ग श्रेणी में पंजीकृत पात्र निविदादाताओं से ई0 टेण्डरिंग के माध्यम से एस0बी0डी0 पर आधारित बिंड नीचे दर्शाये गये कार्य हेतु आमंत्रित की जाती है। निविदादाता बिंड से सम्बन्धित अभिलेख (जैसे-कॉन्ट्रेक्ट डाटा, प्रपत्रो, कॉन्ट्रेक्ट की शर्ते, तकनीकी विशिष्टियाँ, बिल ऑफ क्वान्टिटी, एवं बिड की संशोधित/परिशिष्ट शर्ते इत्यादि) की भली भाँति जाँच कर लें।

頭(2) 花(2)	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (रूठ लाख में)	धरोहर धनराशि (रू० लाख में)	निविदा की लागत (रू७ में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि वर्षाकाल सहित	श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7
1	जनपद मेरठ में परतापुर गंगोल तीर्थ चन्दसारा फफ्ण्डा मार्ग का चीडीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य।	1330.00	26.65	2000+300+ GST @ 18% 2714.00	०७ माह	Road "A" Category

- लगाई गयी है।
- लाइन केवल नेट बैकिंग द्वारा भुगतान के परचात यू0टी0आर0 प्राप्ति रसीद के रूप में ही मान्य होगी। निविदा से सम्बन्धित विस्तृत विवरण एवं शर्ते वेबसाइट http://etender.up.nic.in पर ऑनलाईन
- बिड डाक्युमेन्ट वेबसाइट http://etender.up.nic.in पर दिनांक 28.11.2023 से 05.12.2023 तव उपलब्ध है, जो कि दिनांक 05.12.2023 को अपरान्ह 12:00 बजे तक अपलोड किये जा सकते हैं। निविदा की तकनीकी बिंह दिनांक 05.12.2023 को अपरान्ह 12:30 बजे कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता
- निविदा डालने हेतु निविदादाता के पास किसी डिजिटिल सिग्नेचर सर्टिफिकेट सर्टिफाईंग प्राधिकरण द्वारा
- शासनादेश संख्या-879(1)/23-7-2020पी0डब्लू0अनु0-07 लखनऊ दिनांक 25.08.20 के आदेशानुसा प्रहरी एप पर चाणक्य के माध्यम से निविदा डालने हेतु पंजीकरण कराना आवश्यक होगा।

अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,

dt 18.11.2023



आम जनता को सूचित किया जाता है कि एक व्यक्ति जिसका नामः नामालूम, पुत्रः नामालूम, पताः नामालूम, उम्रः लगभग 25 साल, कदः 5'8", लिंगः पुरुष, रंगः गेहुँआ, पहचान चिन्हः दाहिने हाथ पर संजय नाम लिखा और बाएं हाथ पर महादेव का टैटू, पहनावाः स्लेटी रंग टी-शर्ट, हल्के आसमानी रंग का लोअर,

इस सम्बंध में DD No. 28A, दिनांक 16.11.2023, पुलिस स्टेशनः **न्यू उस्मानपुर, दिल्ली** में दर्ज है। यदि इसके बारे में कोई सुराग या

> थाना प्रमुख पुलिस स्टेशनः न्यू उस्मानपुर, दिल्ल

DP/13214/NE/2023

फोनः 875087072

परिवार अज्ञात है. जो दिनांक 13.10.2023 को रात्रि 09:15 बजे डीडीयू अस्पताल, हरि नगर, दिल्ली में मृत पाया गया। इस संबंध में डीडी संख्या 136ए, दिनांक 13.10.2023, घारा 174 सीआरपीसी, को पुलिस थाना पंजाबी



एसएचओ / पंजाबी बाग, दिल्ली को सूचित करें। पुलिस थाना पंजाबी बाग, दिल्ल

ई-मेल : sho-punjabibagh-dl@nic.i

DP/13298/WD/2023

ई-निविदा सूचना

कार्य का विवरण प्रयागराज मंहल के प्रयागराज छिवकी, इरादतगंज स्टेशनों पर एकओबी और अ

निविदा बन्द होने 11.12,2023, निविदा खुलने की 11,12,2023, 2023 की तिथि तथा समय 14:00 वजे तिथि तथा समय 15:00 बजे **एलोकेशनः** कैपिटल, **यूडब्लूआईडी नं0**ः 060253221016, 060253231010

तीन प्लैटफॉर्म का है, लेकिन 422 करोड़ रुपये तरह ही बनाया जाएगा। जहां खाने-पीने से लेकर वेटिंग लाउंज भी होंगी। स्टेशन के अंदर और वाहर रूम्स होंगे। यहां मेल-फीमेल के लिए 77 डॉरमेट्री स्टेशन के फ्रंट और फ्लैंटफॉर्म दोनों तरफ मंदिर की सुविधा होगी।

पहचान की अपील

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि एक अज्ञात व्यक्ति जिसका नाम, निवास और



इस अज्ञात मृत शरीर के बारे में यदी कोई जानकारी मिले तो कृपन

वरिष्ठ मण्डल विद्युत अभियन्ता/क0वि0/30म0रे0/प्रयागराज, द्वारा भारत के राष्ट्रपति के लिये उनकी ओर से निम्न कार्य हेतु ई-निविदा आमंत्रित की जाती हैं। जिनका विवरण निम्न प्रकार है।

annian.	भारत योजना के तहत मिर्ज़ापुर और विंघ्याचल स्टेशनों पर 12 मीटर चौड़े एकओर्ब प्रावधान के कारण 25 केवी ओएचई में संशोधन । (दूसरा आमंत्रण)					
ळाव	अनुमानित लागत	₹.26911534.38	बिड सुरक्षा राशि	₹5. 2,84,600.0		
ठेका-	word analys	10 mft m	Acres Refe	mar Albert		

नोटः(1) उपरोक्त ई-निविदा का पूर्ण विवरण (निविदा प्रपत्र सहित) वेबसाइट www.ireps.go

पर निविदा खोलने की तिथि से 21 दिन पहले से उपलब्ध होगा। (2) उपरोक्त निविदा में ई-बिड अलावा किसी अन्य रूप में बिड स्वीकार नहीं की जायेगी। इस प्रयोजन हेतु वेन्डरों को चाहिए वि अपने आपको डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र के साथ IREPS की वेबसाइट पर पंजीकत कर (3) किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या के समाधान के लिए IREPS की वेबसाइट की लाइन से सम्पर्क किया जा सकता है। 1880/23 (■ North central railways

■ www.ncr.indianrailways.gov.in

③ @north central railways.gov.in

④ @north central railways.gov.in

□ @north central rai

निविदा में मांगी गयी धरोहर धनराशि एवं निविदा शुल्क प्राप्त (कॉलम नं0 04 एवं 05 के अनुसार) ऑन

मेरठ वृत्त, लो०नि०वि०, मेरठ में खोली जायेगी।

जारी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है।

(सतेन्द्र सिंह) (जगदीश प्रसाद) अधीक्षण अभियन्ता

मेरठ वृत्त लो०नि०वि०

पहचान की अपील



जानकारी मिले तो इसकी सूचना तुरंत निम्नलिखित पते पर दें।

लिंग : पुरुष, उम्र : लगभग ४० वर्ष, कद : 5'6", रंग : गहरा, पहनावा नीली–सफेद लाइन शर्ट, काली पैंट।

फोन नं. : 875087112

मध्य विनांकः 17.11.20

ई-निविदा खलने की तिथि: 14/12/2023 10. Date of Physical submission of document: As per Clause 2.2.1 and/or Clause 2.3. 11. Pre-bid Conference: At 11.00 Hrs on 24.11.2023 in DRM Office. Do Batti, RATLAM 457001(MP) 12. Last date of receiving Queries: 15.00 Hrs of 25.11.2023. विस्तृत निविदा



कार्य का नाम

 JANAKPURI B-1/2, Main Najafgarh Road, Opp. Metro Pillar 543
 NOIDA, Nirula's Sec-2, Near Metro Station, Sec-15, Noida, UP • LAJPAT NAGAR, 49, Main Ring Road, Adj. Haldi Ram, Near Moolchand Crossing

www.ireps.gov.in पर आमंत्रित करते हैं। विवरण इस प्रकार है। (आरएफपी सूचना सं. आरएलढीए/आरएफपी/एसजारढी-57 ऑफ 2023 दिनांक 17.10.2023) क्र. ई-टेंडरिंग संख्या Similar

ने की तिबि: 14.11.2023. निविदा खलने की तिबि: 08.12.2023. विस्तृत निविदा सचना अर्हता एवं अन्य शर्ते वेबसाईट www.ireps.gov.in पर उपलब्ध है।

देतराबात पीठ में

कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के मामले में पनी (समझौता, ठहराव और समामेलन) नियम, 2016 के साथ पठित हम्पनी अधिनियम, 2013 के अन्य प्रावधानों के साथ पठित घारा 230

निर्माणवृद्धि कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड

समामेलन की योजना के मामले में र्स "निर्माणनृद्धि कंस्ट्रकान प्रदर्शेट लिमिटेड" 16.05.2011 को कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रानचानों के तहत निर्मापत

रा नेटिस दिया जाता है कि

त करनी होगी। याधिका की एक प्रति इसके लिए निर्धारित शुन्क का धुगतान करने पर अधोहस्ताधरी द्वारा किसी श्री r व्यक्ति को दे दी नाएवै।

TOP: 20.11.2023

इस्ता./

अनंत राज लिमिटेड के लिए

यदि किसी व्यक्ति को इस मृत व्यक्ति के बारे में कोई भी जानकारी

या सूचना हो तो निम्नलिखित पते पर सूचित करने की कृपा करें।

सप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा कि हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट आरोपी को ट्रॉजिट अग्रिम जमानत दे सकते हैं, भले ही FIR किसी दूसरे राज्य में ही क्यों न दर्ज हो। जस्टिस वी.वी. नागरत्ना और जस्टिस उज्जल भइयां की पीठ राजस्थान में एक शिकायत से संबंधित मामले की सनवाई जिला अदालत से अग्रिम जमानत दी गई हाई कोर्ट या सत्र अदालतें किसी आरोपी को ट्रॉजिट अग्रिम जमानत दे सकती हैं, भले ही अपराध उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं किया गया हो और अंतरिम सुरक्षा तव तक जारी



में नहीं पहुंचता-सुप्रीम कोर्ट



कि जांच अधिकारी और एजेंसी को ऐसी सरक्षा की पहली तारीख को नोटिस दिया जाना चाहिए और आबेदक को अदालत को संतुष्ट करना होगा कि वे क्षेत्राधिकार वाली

तब तक जारी रहेगी जब तक

वह क्षेत्राधिकार वाली अदालत

रेलवे प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी



जैसे आठ पिरामिड बनाए गए हैं। यहां शानदार लैंडस्कैपिंग की जा रही है। मुमकिन है कि स्टेशन के गेट के पास परुषोत्तम भगवान श्रीराम की मर्ति की भी स्थापना की जाए। स्टेशन के अंदर मंदिर के दर्शन

दूसरे चरण में छह प्लैटफॉर्म होंगे तैयार: का काम इस साल 31 दिसंबर तक परा कर लिया अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल स्टेशन की क्षमता को वढ़ाकर एक लाख यात्री तक किया जा रहा है। स्टेशन का फ्रंट गेट और पूरा फसाड के दूसरे चरण में निर्माण में इसे छह प्लैटफॉर्म का किया जाएगा। प्लैटफॉर्म के ऊपर मेट्रो स्टेशन की से किया गया है, जिस पत्थर का इस्तेमाल रामलला के मंदिर को बनाने में किया जा रहा है। दुनियाभर में मशहूर इस पत्थर की उम्र पांच हजार साल से भी 12 लिफ्ट, 14 एस्केलेटर, फूड प्लाजा, पूजा की दकानें, क्लॉक रूम और डॉरमेट्री समेत रिटायरिंग ज्यादा की वताई जाती हैं। वारिश होने पर इसकी

दिनांक : 20.11.2023

अपील

बरामदी स्थलः जो दिल्ली के जय प्रकाश नगर, गली नंबर 1, एल—26 / सी के पास मृत मिला था।

बाग, दिल्ली में दर्ज किया गया है। इस अज्ञात मृत व्यक्ति का विवरण इस प्रकार है :

सुराग नहीं मिल पाया है। अगर किसी को इस मृत महिला के बारे में कोई जानकारी मिले तो कृपया निम्नलिखित फोन नम्बरों पर सूचित करें। थानाअध्यक्ष पुलिस थाना स्वरूप नगर, दिल्ली DP/13307/ON/2023 फोनः 7065036327, 9319941233

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि एक व्यक्ति जिसका नाम नामालूम पुत्र अज्ञात

DP/13205/Rly/2023

नामालूम निवासी नामालूम। आयुः लगभग 30-35 वर्ष, कद 5 फुट 7 इंच, रंग गेहुंआ, शरीर मध्यम, चेहरा अण्डाकार जो नंगे पैर सफेद शर्ट, ग्रे पेंट पहने हुए दिनांक 13.11.2023 को वेस्ट फुट ओवर ब्रिज प्लेटफार्म नंबर 14/15 पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन, दिल्ली में मृत पाया गया। इस संदर्भ में डीडी संख्या 36A दिनांक 13.11.2023 धारा 174 सीआरपीसी के तहत थाना पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन, दिल्ली में दर्ज है। शव को दिल्ली के सब्जी मंडी शवगृह में सुरक्षित रखा गया है।

> थाना पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन, दिल्ली फोनः 011-23961522, 9910939878